

UGC NET June 2024 Education Question Paper (Unofficial)

51. Following are the examples of synchronous communication :

A. Video-blogs	B. Video conferencing	C. Audio conferencing
D. Electronic mail	E. Virtual classrooms	

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A, B and C only (2) C, D and E only (3) B, C and E only (4) A, B and

समकालिक संचार के निम्नलिखित उदाहरण हैं :

A. वीडियो ब्लॉग्स	B. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग	C. ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग
D. इलेक्ट्रॉनिक मेल	E. आभासी कक्षा-कक्षा	

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) केवल A, B और C (2) केवल C, D और E (3) केवल B, C और E

52. Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Survey Research	I. Content Analysis
B. Experimental Research	II. Primary Data
C. Historical Research	III. Sampling
D. Philosophical Research	IV. Treatment

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I	सूची - II
A. सर्वेक्षण शोध	I. सामग्री विश्लेषण

53. Match List - I with List - II.

List - I	List - II
A. Miller and Seller Model	I. Grassroot Model
B. Hilda Taba	II. Non-Technical Model
C. Weinstein and Fantini Model	III. Specific objective deduced from general objectives
D. Goodlad Model	IV. Transmission-Transaction-Transformation position

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I	सूची - II
A. मिलर और सेलर प्रतिरूप	I. जमीनी प्रतिरूप
B. हिल्डा टाबा	II. गैर-तकनीकी प्रतिरूप
C. वैनस्टेन और फानटिनी प्रतिरूप	III. सामान्य उद्देश्यों से निगमित विशिष्ट उद्देश्य
D. गुडलाड प्रतिरूप	IV. पारेषण-अंतरण-परिवर्तनकारी स्थिति

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

54. 'Field notes' are associated with :

- | | |
|---------------------|------------------------|
| (1) Case-study | (2) Ethnography |
| (3) Survey research | (4) Phenomenology |
- 'क्षेत्र टिप्पणी (फील्ड नोट्स)' किससे संबंधित है ?
- | | |
|------------------------------------|--|
| (1) व्यष्टि - अध्ययन (केस-स्टडी) | (2) नृजाति - वर्णन (एथ्नोग्राफी) |
| (3) सर्वेक्षण - शोध (सर्वे रिसर्च) | (4) घटना - क्रिया - विज्ञान (फिनॉमिनॉलॉजी) |

55.

Match List - I with List - II.

List - I

- A. Blake and Mouton's Managerial Grid
- B. Hersey and Blanchard's Model
- C. Fiedler's Contingency Model
- D. Leader Member Exchange Theory

List - II

- I. Group effectiveness depends on Leader's style
- II. Leaders and followers develop unique relationship
- III. A self-Assessment Tool
- IV. Leader's behaviour according to circumstances

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I

सूची - II

56. Arrange the following in proper sequence, as per Hilda Taba's Model of Curriculum :

- | | | |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| A. Formulation of objectives | B. Organization of content | E. Selection of content |
| C. Selection of learner activities | D. Diagnosis of needs | |

Choose the correct answer from the options given below :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| (1) D, C, B, E, A | (2) A, B, D, C, E | (3) D, A, E, B, C | (4) A, E, C, D, B |
|-------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|

हिल्डा ताबा पाठ्यचर्या मॉडल के अनुसार निम्नलिखित को उचित क्रम प्रदान करें -

- | | | |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------|
| A. उद्देश्यों का निर्माण | B. अंतर्वस्तु का संगठन | E. सामग्री का चयन |
| C. विद्यार्थी क्रियाकलापों का चयन | D. आवश्यकताओं का निदान | |

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (1) D, C, B, E, A | (2) A, B, D, C, E | (3) D, A, E, B, C | (4) A, E, C, D, B |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

57. Habermas distinguishes three dialectically related levels of cognitive interests, they are :

- | | |
|--|---|
| (1) technical, practical and critical | (2) empirical, rational and analytical |
| (3) political, social and moral | (4) economical, historical and biological |

हैबरमास संज्ञानात्मक अभिरुचि को बोलियों के संदर्भ में तीन स्तरों में विभाजित करते हैं, वे हैं :

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| (1) D, C, B, E, A | (2) A, B, D, C, E |
|--------------------------|-------------------|

57. Habermas distinguishes three dialectically related levels of cognitive interests, they are :

- | | |
|--|---|
| (1) technical, practical and critical | (2) empirical, rational and analytical |
| (3) political, social and moral | (4) economical, historical and biological |

हैबरमास संज्ञानात्मक अभिरुचि को बोलियों के संदर्भ में तीन स्तरों में विभाजित करते हैं, वे हैं :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (1) तकनीकी, व्यवहारिक और आलोचनात्मक | (2) व्यापक, तर्कशील और विश्लेषणमूलक |
|-------------------------------------|-------------------------------------|

58. Topics such as getting along with others, understanding physical changes associated with puberty, developing personal values, understanding peer status etc., will gain entry into the curriculum through :

- (1) Subject area approach (2) Broad fields approach
(3) Emerging needs approach (4) **Social problems approach**

इसमें के साथ सामंजस्य बैठाना, यौवनारंभ से जुड़े शारीरिक परिवर्तनों को समझना, व्यक्तिगत मूल्य विकसित करना, सहपाठी सम्बन्धना इत्यादि जैसे प्रकारण पाठ्यक्रम में किस उपागम द्वारा प्रविष्ट होंगे ?

- (1) विषय क्षेत्र उपागम (2) व्यापक क्षेत्र उपागम
(3) उदीयमान आवश्यकता उपागम (4) सामाजिक समस्याएँ उपागम

59. Which of the following is a fundamental principle for National Education Policy (NEP), 2020 ?

- (1) Multi-cultural Education
(2) **Universal Design for Learning**
(3) Using Assistive and Adaptive Technologies
(4) **Full Equity and Inclusion**

60. Which amongst the following is NOT a category of assessment ?

- (1) Assessment of Learning (2) Assessment for Learning
(3) Assessment as Learning (4) **Assessment with Learning**

निम्नलिखित में से कौन सी आकलन की श्रेणी नहीं है ?

- (1) अधिगम का आकलन (2) अधिगम के लिए आकलन
(3) अधिगम के रूप में आकलन (4) अधिगम के साथ आकलन

61. "Challenge of Education : A Policy Perspective" is the title of the following document :

- (1) **NPE, 1986** (2) NPE, 1968
(3) NEP, 2020 (4) Yashpal Committee Report, 1992

निम्नलिखित में से किस दस्तावेज का शीर्षक "शिक्षा की चुनौती : एक नीतिगत दृष्टिकोण" है ?

- (1) एनपीई, 1986 (2) एनपीई, 1968
(3) एनईपी, 2020 (4) यशपाल समिति रिपोर्ट, 1992

62. Assessment of learner's portfolio is :

- (1) **Activity-based analysis** (2) Task-analysis
(3) Observational Analysis (4) **Document-Analysis**

अधिगमकर्ता के पोर्टफोलियो का आकलन है -

- (1) क्रियाकलाप-आधारित विश्लेषण (2) कार्य-विश्लेषण
(3) अवलोकनात्मक-विश्लेषण (4) अभिलेख-विश्लेषण

63. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
Philosophy		Philosophers	
A.	Sankhya	I.	Dignaga
B.	Vedant	II.	Parshvanath
C.	Jainism	III.	Kapil
D.	Buddhism	IV.	Adi Sankara

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I		सूची - II	
दर्शन		दार्शनिक	
A.	सांख्य	I.	दिग्नाग
B.	वेदांत	II.	पार्श्वनाथ
C.	जैन वाद	III.	कपिल
D.	बौद्ध वाद	IV.	आदि शंकर

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) A-I, B-III, C-IV, D-II
(2) A-III, B-IV, C-II, D-I
(3) A-IV, B-I, C-III, D-II
(4) A-II, B-IV, C-III, D-I

64. A strategy for memorizing and assimilating information is :

- (1) Inductive thinking
(2) Concept attainment
(3) Scientific inquiry
(4) Mnemonics

सूचना याद करने और आत्मसात करने के लिए एक आव्यूह है -

- (1) आगमनात्मक चिंतन
(2) संप्रत्यय-प्राप्ति
(3) वैज्ञानिक जाँच
(4) स्मृति-विज्ञान (मैमोनिक्स)

65. Internal and External Criticism are the processes involved in :

- (1) Historical Research
(2) Survey Research
(3) Experimental Research
(4) Ex-post-facto Research

आंतरिक और बाहरी आलोचना की प्रक्रियायें सम्मिलित हैं -

- (1) ऐतिहासिक शोध में
(2) सर्वेक्षण शोध में
(3) प्रयोगात्मक शोध में
(4) कार्योत्तर शोध में

66. Match List - I with List - II.

List - I

- A. Systematic Sampling
- B. Cluster Sampling
- C. Quota Sampling
- D. Snowball Sampling

List - II

- I. Large and widely dispersed population
- II. Informants
- III. Simple Random Sampling
- IV. Non-probability stratified sampling

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I

- A. व्यवस्थित प्रतिदर्शन
- B. समूह (क्लस्टर) प्रतिदर्शन
- C. कोटा प्रतिदर्शन
- D. हिमकंदुक (स्नोबाल) प्रतिदर्शन

सूची - II

- I. विशाल और व्यापक वितरित जनसंख्या
- II. सूचक
- III. सामान्य यादृच्छिक प्रतिदर्शन
- IV. गैर-प्रायिकता स्तरित प्रतिदर्शन

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A-III, B-IV, C-I, D-II

(2) A-I, B-III, C-IV, D-II

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

67. POSDCORB is an acronym for Planning, Organising, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting, that are the main organising responsibilities within a team or organisation. This was coined by :

(1) Golick and Urwick (2) Bass and Bass
 (3) Keynes and Smith (4) Drucker and Pecker

प्लानिंग, संगठन, रिपोर्टिंग और बजटीकरण है, जो किसी संगठन या टीम के मुख्य संगठन जिम्मेदारियों के अंदरूनी हैं।

68. As per the Freud's types of personality, a person who shows self love, exhibitionism and tries to draw others, comes under the following type of personality :

- (1) The anal type
- (2) The Phallic type
- (3) The Oral Sadistic type
- (4) The Oral Passive type

फ्रायड के व्यक्तित्व के प्रकारों के अनुसार, एक व्यक्ति जो कि स्वप्रेम प्रदर्शित करता है, दिखावा पसंद है और दूसरों को आकर्षित करने का प्रयास करता है, निम्न प्रकार के व्यक्तित्व के अंतर्गत आता है -

- (1) 'एनल' प्रकार
- (2) 'फैलिक' प्रकार
- (3) 'ओरल-सैडिस्टिक' प्रकार
- (4) 'ओरल-पैसिव' प्रकार

69. The Wardha Education Committee of the Central Advisory Board of Education that recommended expenditure on education was chaired by :

- (1) Mahatma Gandhi (2) Zakir Hussain (3) B.G. Kher (4) J.L. Nehru

शिक्षा पर व्यय बढ़ाने की अनुशंसा करने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की वर्धा शिक्षा समिति की अध्यक्षता थी -

- (1) महात्मा गाँधी (2) ज़ाकिर हुसैन (3) बी.जी. खेर (4) जे.एल. नेहरू

70. 'Sarva Shiksha Abhiyan' was commenced in India in _____.

भारत में 'सर्व-शिक्षा अभियान' कब प्रारंभ हुआ था ?

- (1) 1996
- (2) 2000
- (3) 2002
- (4) 2004

71. Metacognitive regulation describes how learners _____ and _____ their cognitive
 A. Monitor B. Supervise C. Observe D. Practice E.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A and B only (2) A and C only (3) A and D only (4) A and E only

72. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
A. Intellectual Disability	I. Achievement Potential Discrepancy		
B. Hearing Impairment	II. Tactile Path		
C. Learning Disability	III. I.Q. less than 70		
D. Visual Impairment	IV. Audiometry		

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

सूची - I		सूची - II	
A. बौद्धिक अक्षमता	I. लब्धि - संभाव्यता विसंगति		
B. श्रवणबाधिता	II. स्पर्शग्राह्य (टेक्टाइल) पथ		
C. अधिगम अक्षमता	III. 70 से कम बुद्धिलब्धि		
D. दृष्टिबाधिता	IV. श्रव्यमापिता (आडियोमेट्री)		

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) A-III, B-IV, C-I, D-II (2) A-II, B-IV, C-III, D-I
 (3) A-III, B-II, C-IV, D-I (4) A-I, B-IV, C-II, D-III

73. Arrange the following in ascending order according to Tyler Model :

- A. Evaluation of Purposes B. Purposes of Education
 C. Organisation of Experiences D. Educational experiences related to the purposes

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A, B, C, D (2) B, D, C, A (3) D, C, B, A (4) C, B, D, A

74. Pick the CORRECT matches.

- A. Symbolic Interactionism - George Mead B. Structural Functionalism - Talcott Parsons
 C. Rationalism - John Locke D. Empiricism - Rene Descartes
 E. Socialism - Marx and Engels

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) A, B and E only (2) B, C and D only (3) C and E only (4) C, D and E only

75. Which of the following is NOT a technical model of curriculum planning ?

- (1) Open classroom model (2) Grassroot model
 (3) The Hunkins model (4) The Tyler model

- निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम नियोजन का तकनीकी मॉडल नहीं है ?
 (1) खुली कक्षा मॉडल (2) जमीनी मॉडल
 (3) हुन्किंस मॉडल (4) टाइलर मॉडल

76. Match List - I with List - II

- List - I**
 National MOOCs Coordinator
 A. University Grants Commission
 B. NPTEL
 C. Consortium for Educational Communication
 D. IGNOU

List - II
 Sectors

- I. Technical/Engineering UG and PG Degree programme
 II. Diploma and Certificates
 III. Non-Technology Post Graduation Degree Programme
 IV. Non-Technology Under Graduation Degree Programme

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए

सूची - I

राष्ट्रीय MOOCs समन्वयक

- A. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 B. NPTEL
 C. शैक्षणिक संचार कंसोर्टियम
 D. इग्नू

सूची - II

क्षेत्र

- I. तकनीकी/अभियंत्रिकी सूत्री और पीजी डिग्री कार्यक्रम
 II. डिप्लोमा और प्रमाणपत्र
 III. गैर तकनीकी पसत्यातक डिग्री कार्यक्रम
 IV. गैर तकनीकी स्नातक डिग्री कार्यक्रम

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-IV, B-I, C-II, D-III

(3) A-III, B-I, C-IV, D-II

(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

77. Rational Emotive Behaviour Therapy was propounded by -

- (1) Carl Rogers (2) Carl Jung (3) Albert Ellis (4) Albert Methews
 तर्कशील भावनामूलक व्यवहार उपचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था ?
 (1) कार्ल रोजर्स (2) कार्ल जुंग (3) अल्बर्ट एलिस (4) अल्बर्ट मैथ्यू

78. Saylor and Alexander presented approach to curriculum with distinct FOUR stages with feedback loop. Identify these stages :

- A. Policy Making B. Goal Setting C. Curriculum Design
 D. Curriculum Implementation E. Curriculum Evaluation

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) A, B, C and D only (2) B, C, D and E only
 (3) A, C, D and E only (4) A, B, D and E only

सेलर और अलेक्जेंडर ने प्रतिपुष्टि परिपथ के साथ विशिष्ट चार चरणों वाली पाठ्यचर्या की उपागम प्रस्तुत की। इन चरणों की पहचान करें -

- A. नीति निर्माण B. लक्ष्य निर्धारण C. पाठ्यचर्या अभिकल्प
 D. पाठ्यचर्या क्रियान्वयन E. पाठ्यचर्या मूल्यांकन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) केवल A, B, C और D

(2) केवल B, C, D और E

79. Gandhi established Tolstoy Farm with a school-on-campus for the campaign of satyagrah. This is located at :
 गांधी ने सत्याग्रह अभियान के लिए एक परिसर-विद्यालय सहित टालस्टॉय फार्म की स्थापना की थी ? यह स्थित है :
- (1) दक्षिण अफ्रीका (2) साबरमती (3) सेवाग्राम (4) वर्धा

80. If in the population, intelligence is normally distributed, it means that :
 (1) Everyone in the population has approximately the same level of intelligence
 (2) Most people are average in terms of intelligence
 (3) Most people have extremely high intelligence
 (4) Most people have extremely low intelligence

यदि जनसंख्या में बुद्धिमत्ता सामान्य रूप से वितरित है, तो इसका अर्थ है :

- (1) जनसंख्या में प्रत्येक का बुद्धिमत्ता स्तर समान होगा
 (2) अधिकांश लोग औसत बुद्धिमत्ता वाले होंगे
 (3) अधिकांश लोग अति उच्च बुद्धिमत्ता वाले होंगे
 (4) अधिकांश लोग अति निम्न बुद्धिमत्ता वाले होंगे

81. Major characteristics of experimental research are :

- A. Manipulation of independent variable B. Inclusion of testing variable
 C. Control of intervening variables D. Treating the dependent variable
 E. Pre-test Post-test design

Choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) A, C and E only (2) A, B and C only (3) B, D and E only (4) C, D and E only

प्रयोगात्मक शोध की प्रमुख विशेषताएँ हैं :

82. The correct sequence of steps involved in systems approach is :

- A. Operation and Implementation B. Evaluation C. Analysis of Input
 D. Identification of Preferred Solution E. Specification of Objectives

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) E, C, A, B, D (2) E, C, D, A, B (3) A, B, C, E, D (4) A, C, E, B, D

प्रणाली उपागम में सम्मिलित चरणों का सही अनुक्रम है :

- A. प्रचालन और क्रियान्वयन B. मूल्यांकन C. अंदा (इनपुट) का विश्लेषण
 D. प्राथमिकता प्राप्त समाधान की पहचान E. उद्देश्यों का विशिष्टीकरण

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

- (1) E, C, A, B, D (2) E, C, D, A, B (3) A, B, C, E, D (4) A, C, E, B, D

86. Convergent thinking refers to _____ and divergent thinking refers to _____
 (1) Verbal Ability, Mathematical Ability (2) One solution, Many solutions
 (3) Many solutions, One solution (4) Intrinsic Motivation, Extrinsic Motivation
 अभिसारी चिंतन का तात्पर्य है _____ और अपसारी चिंतन का तात्पर्य है _____।
 (1) शाब्दिक योग्यता, गणितीय योग्यता (2) एक समाधान, बहु समाधान
 (3) बहु समाधान, एक समाधान (4) आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा
87. Components of educational management are :
 A. Educational Direction B. Educational Theory
 C. Educational Measurement D. Educational Evaluation E. Educational Control
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A, B and C only (2) A, C and D only (3) A, D and E only (4) A, C and E only
 शैक्षणिक प्रबंधन के घटक हैं :
 A. शैक्षणिक निर्देशन B. शैक्षणिक सिद्धांत
 C. शैक्षणिक मापन D. शैक्षणिक मूल्यांकन E. शैक्षणिक नियंत्रण
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
 (1) केवल A, B और C (2) केवल A, C और D (3) केवल A, D और E (4) केवल A, C और E

88. "Sit idle no more, Go, get education
 end misery of the oppressed and forsaken
 You've got a golden chance to learn....."
 The poem "Go, get education" is written by :
 (1) B. R. Ambedkar (2) J. B. Kripalani (3) Mahatma Gandhi (4) Savitribai Phule

89. The National Curriculum Framework for School Education was drafted by :
 (1) CBSE (2) Ministry of Education
 (3) UGC (4) NCERT
 'विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा' किसके द्वारा तैयार की गई थी ?
 (1) सीबीएसई (2) शिक्षा मंत्रालय
 (3) यूजीसी (4) एनसीईआरटी

90. Characteristics of a good sample design include :
 A. Population - Mapping B. Truly Representative Sample
 C. Statistically Significant Results D. Small Sampling Error
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A, B, C, D and E (2) A, B and E only
 (3) C, D and E only (4) B, D and E only
 अच्छे प्रतिदर्श अभिकल्प की विशेषताओं में सम्मिलित हैं :

91. The pali tripitaka texts are important texts of Buddhist education. Which amongst the following is NOT a tripitaka ?
 (1) Dhamma Pitaka (2) Gyan Pitaka (3) Vinay Pitaka (4) Sutta Pitaka
 पाली त्रिपिटक ग्रंथ बौद्ध शिक्षा के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। निम्नलिखित में से कौनसा त्रिपिटक नहीं है ?
 (1) धम्म पिटक (2) ज्ञान पिटक (3) विनय पिटक (4) सुत पिटक

<p>List - I</p> <p>Theorist</p> <p>A. Guilford</p> <p>B. Spearman</p> <p>C. Gardner</p> <p>D. Goleman</p>	<p>List - II</p> <p>Theories</p> <p>I. Multiple Intelligence</p> <p>II. Emotional Intelligence</p> <p>III. Structure of Intellect</p> <p>IV. Two factor Theory of Intelligence</p>
--	---

सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :

<p>सूची - I</p> <p>सिद्धांतकार</p> <p>A. गिलफर्ड</p> <p>B. स्पीयरमैन</p> <p>C. गार्डनर</p> <p>D. गोलमैन</p>	<p>सूची - II</p> <p>सिद्धांत</p> <p>I. बहु बुद्धिमत्ता</p> <p>II. भावनात्मक बुद्धिमत्ता</p> <p>III. बुद्धि की संरचना</p> <p>IV. बुद्धिमत्ता का द्विकारक सिद्धांत</p>
--	---

Choose the correct answer from the options given below :

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

(1) A-IV, B-III, C-II, D-I	(2) A-III, B-IV, C-I, D-II
(3) A-I, B-III, C-II, D-IV	(4) A-I, B-II, C-III, D-IV

Pick the INCORRECT matches of Teaching Models and Proponents.

A. Social Interaction Model - Dewey and Herbart

93. Pick the INCORRECT matches of Teaching Models and Proponents.

A. Social Interaction Model - Dewey and Herbart

B. Behaviour Altering Model - Carl Rogers

C. Social Inquiry Model - Cox and Byron

D. Information Development Model - Skinner

E. Self-Awareness Model - Paul and Schutz

Choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) A, C and E only (2) B, C and D only (3) B and D only (4)

शिक्षण-प्रतिरूप और प्रतिपादकों के असत्य युग्म का चयन करें :

A. सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिरूप - डेवी और हर्बर्ट

B. व्यवहार परिवर्तनकारी प्रतिरूप - कार्ल रोजर्स

C. सामाजिक पृच्छा प्रतिरूप - कॉक्स और बायरन

D. सूचना विकास प्रतिरूप - स्किनर

E. स्व-जागरूकता प्रतिरूप - पॉल और शूट्ज

94. In Arabic language and Islamic tradition, education is known by three terms. Which of the following is NOT a word for education ?

(1) Talim (2) Tarbiyah (3) Tijarat (4) Talib

अरबी भाषा और इस्लामी परंपरा में शिक्षा को तीन शब्दों से जाना जाता है। निम्नलिखित में से शिक्षा के लिए नहीं है ?

95. Arrange the following 5E's, as the phases of constructivist learning :

A. Engage B. Explore C. Explain

D. Elaborate E. Evaluate

Choose the correct answer from the options given below :

(1) A, B, C, D, E (2) E, D, A, B, C (3) B, C, E, A, D (4) D, A, B, E

निम्नलिखित 5E's को रचनात्मक अधिगम के चरणों के रूप में व्यवस्थित करें :

96. Critical pedagogies originated from the works of :
 (1) Bernstein, 2000 (2) Paulo Freire, 1972 (3) Alexander, 2001 (4) ...
 आलोचनात्मक शिक्षणशास्त्र किसकी रचनाओं/कार्यों से व्युत्पन्न हुआ है ?
 (1) बर्नस्टेन, 2000 (2) पाउलो फ्रेरे, 1972 (3) अलेक्जेंडर, 2001 (4) ...

97. According to Piaget, children's knowledge increases through the processes of _____ and _____.
 A. Assimilation B. Adaptation C. Scaffolding
 D. Accommodation E. Application
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) A and B only (2) A and D only (3) B and C only (4) ... only
 पियाजे के अनुसार बालक का ज्ञान _____ और _____ की प्रक्रियाओं द्वारा बढ़ता है।

98. Following steps are used for writing a research proposal :
 A. Framing Research Hypotheses B. Framing Research Questions
 C. Writing Statement of the Problem D. Writing Sample and Sampling-tech
 E. Stating Research Objectives
 The correct sequence for these steps is :
 (1) A, B, D, E, C (2) B, C, E, A, D (3) B, E, C, D, A (4) A ...

NET 2024/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

99. Match List - I with List - II
 List - I
 A. Scientific Inquiry Model
 B. Non-Directive Model
 C. Creative Model
 D. Information Development Model
 सूची - I के साथ सूची - II का मिलान कीजिए :
 सूची - I
 A. वैज्ञानिक पड़ताल प्रतिरूप
 B. गैर-निर्देशात्मक प्रतिरूप
 C. रचनात्मक प्रतिरूप
 D. सूचना विकास प्रतिरूप
 List - II
 I. Carl Rogers
 II. Gordon
 III. Bruner
 IV. Schuman
 सूची - II
 I. कार्ल रोजर्स
 II. गोर्डन
 III. ब्रुनर
 IV. शुमैन
 Choose the correct answer from the options given below :
 नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :
 (1) A-IV, B-III, C-I, D-II (2) A-I, B-III, C-IV, D-II
 (3) A-II, B-IV, C-I, D-III (4) A-IV, B-I, C-II, D-III

100. According to 'Taittiriya Upanishad', arrange following 'Kosh' going inward :
 A. Anandmaya Kosh B. Manomaya Kosh C. Annamaya Kosh
 D. Pranamaya Kosh E. Vigyanmaya Kosh
 Choose the correct answer from the options given below :
 (1) C, D, B, E, A (2) A, B, C, D, E (3) B, C, D, A, E (4) D, A, E, B, C
 'तैत्तिरीय उपनिषद्' के अनुसार निम्नलिखित 'कोश' को आंतरिक से बाह्यिक के क्रम में व्यवस्थित करें :